

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 55

No. 182]

DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

[N.C.T.D. No. 55

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2017

सं. फा. 27(4)2012/सचि.शा./शिक्षा/668-674.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित दिनांक 20 अगस्त, 1991 की अधिसूचना संख्या फा. 2(2)/87-एस-II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में विधिक सहायक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, विधिक सहायक भर्ती नियमावली, 2017 कहा जाएगा।
(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** .—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव**.—इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	विधिक सहायक
2.	पदों की संख्या	:	1* (2017) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स का स्तर — 6, 35400—112400/— रुपये (पूर्व संशोधित पे बैंड 9300—34800 रुपये ग्रेड पे — 4200/—रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट: —आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य: — किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक के साथ कानून की डिग्री सहित स्नातक ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में पांच वर्ष की समेकित स्नातक की उपाधि वांछनीय: विधिक प्रैक्टिशनर के रूप में 2 वर्ष का अनुभव या किसी सरकारी विभाग में विधिक कार्य करने का अनुभव टीप-1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप-2 : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकार के अभिमत से अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकार के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष टीप : पद के कर्तव्यों /उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में यूटीसीएस से कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रेरक प्रशिक्षण, परीवीक्षा की

			पूर्ण सफलता के भाग के रूप में
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टीप: पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण हुई रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों में से भरा जा सकता है।</p> <p>क (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) स्तर -5, 29200-92300/-रु0 (पूर्व संशोधित पे बैंड में 5200-20200/-रु0 ग्रेड पे 2800/-रुपये में) के वेतन मैट्रिक्स में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहित; अथवा समकक्ष, तथा</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले</p> <p>नोट: प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)</p>
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	<p>'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण हेतु) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -अध्यक्ष 2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य 3. विशेष निदेशक (शिक्षा), (प्रशासन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
रंजना देसवाल, विशेष निदेशक, शिक्षा (प्रशासन)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2017

No. F. 27(4)2012/Sectt.Br./Edu/668-674.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of notification number F.2(2)/87-S.II dated the 20th August, 1991, in so far as it relates to the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of

recruitment to the post of Legal Assistant in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. **Short title and commencement.**-(i) These rules may be called Directorate of Education, Legal Assistant Recruitment Rules, 2017.
(ii) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay level in the pay matrix.** - The number of the said post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**--- The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualification** - No person.-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax in any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST.	NUMBER OF POST.	CLASSIFICATION.	PAY LEVEL IN THE PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.
1	2	3	4	5	6	7
LEGAL ASSISTANT.	1* *(2017) SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.	GCS GROUP "B" NON-GAZETTED NON-MINISTERIAL.	LEVEL-6 OF THE PAY MATRIX RS.35400- RS.1,12,400/- (PRE-REVISED PAY BAND- RS.9300-34800 GRADE PAY RS.4200).	NOT APPLICABLE.	NOT EXCEEDING 30 YEARS. (RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS UPTO 05 YEARS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTION OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT). NOTE: THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE THE CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FROM CANDIDATES IN INDIA (AND NOT THE CLOSING DATE PRESCRIBED FOR THOSE IN ASSAM, MEGHALAYA, ARUNACHAL PRADESH,	ESSENTIAL:- (I) BACHELOR'S DEGREE IN ANY SUBJECT WITH BACHELOR'S IN LAW FROM A RECOGNISED UNIVERSITY/INSTITUTE, OR (II) FIVE YEAR INTEGRATED GRADUATE DEGREE IN LAW FROM A RECOGNISED UNIVERSITY /INSTITUTE. DESIRABLE: TWO YEARS EXPERIENCE AS LEGAL PRACTITIONER OR EXPERIENCE IN HANDLING LEGAL WORK IN A GOVERNMENT DEPARTMENT. NOTE-1: QUALIFICATIONS ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY IN CASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELL QUALIFIED. NOTE-2: THE QUALIFICATION (S) REGARDING EXPERIENCE

					MIZORAM, MANIPUR, NAGALAND, TRIPURA, SIKKIM, LADAKH DIVISION OF J&K STATE, LAHAUL & SPITI DISTRICT AND PANGI SUB DIVISION OF CHAMBA DISTRICT OF HIMACHAL PRADESH, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS OR LAKSHADWEEP).	IS/ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY IN CASE OF CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES, IF AT ANY STAGE OF SELECTION THE COMPETENT AUTHORITY IS OF THE OPINION THAT SUFFICIENT NUMBER OF CANDIDATES FROM THESE COMMUNITIES POSSESSING THE REQUISITE EXPERIENCE ARE NOT LIKELY TO BE AVAILABLE TO FILL UP THE VACANCIES RESERVED FOR THEM.
--	--	--	--	--	--	---

WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	METHOD OF RECRUITMENT: WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/DE PUTATION / ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.
8	9	10	11	12	13
NOT APPLICABLE.	TWO YEARS. NOTE: MANDATORY INDUCTION TRAINING OF AT LEAST TWO WEEKS FROM UTCS IN THE FIELD OF DUTIES/ RESPONSIBILITIES OF THE POST, AS PART OF SUCCESSFUL COMPLETION OF PROBATION.	BY DIRECT RECRUITMENT. VACANCIES CAUSED BY THE INCUMBENT BEING AWAY ON TRANSFER ON DEPUTATION OR LONG ILLNESS OR STUDY LEAVE OR UNDER OTHER CIRCUMSTANCES FOR A DURATION OF ONE YEAR OR MORE MAY BE FILLED ON DEPUTATION BASIS FROM THE OFFICERS OF THE CENTRAL GOVERNMENT/ STATE GOVERNMENT/UTS: (A)(I) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT ; OR (II) WITH SIX YEARS SERVICE IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON A REGULAR BASIS IN LEVEL-5 RS.29200-92,300 (PRE REVISED IN THE PAY BAND RS. 5200-20200 GRADE PAY RS.2800/-) IN THE PAY MATRIX OR	NOT APPLICABLE.	GROUP "B" DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONFIRMATION) CONSISTING OF:- 1. SECRETARY EDUCATION, GOVT. OF NCT OF DELHI - CHAIRMAN. 2. DIRECTOR OF EDUCATION, GOVT. OF NCT OF DELHI - MEMBER 3. SPECIAL DIRECTOR EDUCATION (ADMN.) GOVT. OF NCT OF DELHI-MEMBER.	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY.

		<p>EQUIVALENT; AND</p> <p>(B) POSSESSING EDUCATIONAL QUALIFICATION AND EXPERIENCE PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS UNDER COLUMN 7.</p> <p>NOTE: THE PERIOD OF DEPUTATION INCLUDING THE PERIOD OF DEPUTATION IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/ DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT SHALL ORDINARILY NOT EXCEED THREE YEARS.</p> <p>(THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION SHALL BE NOT EXCEEDING 56 YEARS AS ON CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS).</p>			
--	--	---	--	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
RANJANA DESWAL, Spl. Director of Education (Admn.)